

भिन्नों का जोड़ (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{2}{9} + \frac{6}{7} =$$

$$\frac{5}{9} + \frac{4}{6} =$$

$$\frac{2}{6} + \frac{2}{9} =$$

$$\frac{2}{6} + \frac{3}{4} =$$

$$\frac{2}{8} + \frac{7}{3} =$$


$$\frac{6}{4} + \frac{6}{9} =$$

$$\frac{7}{9} + \frac{5}{3} =$$

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{5} =$$

$$\frac{7}{4} + \frac{6}{5} =$$

$$\frac{5}{3} + \frac{3}{2} =$$



भिन्नों का जोड़ (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{2}{9} + \frac{6}{7} = \frac{68}{63} = 1\frac{5}{63}$$

$$\frac{5}{9} + \frac{4}{6} = \frac{11}{9} = 1\frac{2}{9}$$

$$\frac{2}{6} + \frac{2}{9} = \frac{5}{9}$$

$$\frac{2}{6} + \frac{3}{4} = \frac{13}{12} = 1\frac{1}{12}$$

$$\frac{2}{8} + \frac{7}{3} = \frac{31}{12} = 2\frac{7}{12}$$

$$\frac{6}{4} + \frac{6}{9} = \frac{13}{6} = 2\frac{1}{6}$$

$$\frac{7}{9} + \frac{5}{3} = \frac{22}{9} = 2\frac{4}{9}$$

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{5} = \frac{14}{45}$$

$$\frac{7}{4} + \frac{6}{5} = \frac{59}{20} = 2\frac{19}{20}$$

$$\frac{5}{3} + \frac{3}{2} = \frac{19}{6} = 3\frac{1}{6}$$